



### SMEL/SE/2025-26/48

06th August, 2025

The Secretary, Listing Department, BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai 400 001

Maharashtra, India Scrip Code: 543299 The Manager - Listing Department National Stock Exchange of India Limited "Exchange Plaza", 5th Floor, Plot No. C/1, G-Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051, Maharashtra, India Symbol: SHYAMMETL

Dear Sir/Madam,

Sub: Newspaper Publication -Public Notice regarding dispatch of Notice convening the 23rd Annual General Meeting (AGM) and Annual Report for financial year 2024-25

In compliance with Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith the copies of newspaper advertisement made on 06th August, 2025 in in leading newspapers 'The Financial Express - English', 'Jansatta - Hindi' and Regional Language newspaper - Aarthik Lipi in relation to the completion of dispatch of Notice convening 23rd AGM and Annual Report for the financial year ended 31st March, 2025 of the Company.

Copies of the said publication will be also available on the website of the Company at www.shyammetalics.com.

This is for your kind information and record.

For Shyam Metalics and Energy Limited

Digitally signed by **BIRENDRA** BIRENDRA KUMAR JAIN KUMAR JAIN Date: 2025.08.06

Birendra Kumar Jain Company Secretary & Compliance Officer Membership No. F13320

Encl: as above

**OUR BRANDS** 











### SHYAM METALICS AND ENERGY LIMITED

Regd. Office: P-19, (Plate No.: D-403), Taratala Road, CPT Colony, Kolkata, West Bengal - 700088 CIN: L40101WB2002PLC095491 GSTIN: 19AAHCS5842A1ZE

T: +91 33 6521 6521 Email: contact@shyamgroup.comWeb: www.shyammetalics.com Follow us one: [7] 🚳 🕅 🛅

**FINANCIAL EXPRESS** 

## ATOTAL OF 293 INFRA PROJECTS GET NOD

# Gati Shakti projects of ₹13.4 L cr approved

**FE BUREAU** New Delhi, August 5

**ATOTAL OF** 293 infrastructure projects involving investments exceeding ₹13.39 lakh crore have been approved under the PM Gati Shakti National Master Plan (PMGS NMP) since its launch in October 2021, the government informed Parliament on Tuesday.

Replying to a question in the Lok Sabha, minister of state for commerce and industry Jitin Prasada said, "Under the PM Gati Shakti initiative, as on date, 57 Central ministries/departments — including eight infrastructure ministries, 22 social sector departments, and 27 economic and other departments — have been onboarded on the PMGS NMP."

In addition, six states/UTs have also been integrated into the platform. Around 1,700 data layers have been mapped and integrated on the portal, comprising 969 layers from

**AT A GLANCE** 



onboarded on the PMGS NMP

8 infrastructure ministries, 22 social sector departments

■ This include

■ Six states/ UTs have also been integrated into the platform

states/UTs and 731 layers from ministries/departments, he added.

The PM GatiShakti National Master Plan has no specific or separate fund allocation. However, the ministry of finance, department of expenditure made a provision of ₹5,000 crore for disbursement among the states for PMGS related

infrastructure development. Mechanism of Network Planning Group has been institutionalised, under which infrastructure projects are evaluated

for integrated planning, multimodality, inter-modality, synchronisation of efforts, whole of government approach and lastmile connectivity in and around

the project catchment area.

All projects with a cost of over ₹500 crore are subject to appraisal by the NPG, which meets fortnightly. Once cleared by the group, projects proceed to the public investment board (PIB), expenditure finance committee (EFC), or other competent authorities for final approvals.

# Gujarat accounts for 26.6% total exports in FY25

**GUJARAT RETAINED ITS** position as India's top exporting state in FY25, with outbound shipments worth ₹9.83 lakh crore, accounting for 26.6% of the country's total exports,

It said despite a marginal dip from the previous year,

Gujarat's exports remained significantly ahead of all other states, nearly ₹4.3 lakh crore more than Maharashtra (₹5.5 lakh crore), the secondranked state.

Maharashtra is followed by Tamil Nadu, Karnataka, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh and Telangana, according to the analysis of the Federation of **Indian Export Organisations** 

"In FY25, Gujarat reaffirmed its leadership as India's top exporting state, account-

ing for ₹9.83 lakh crore, which

is 26.6% of the country's total

It added that Gujarat's export dominance continues to be driven by a few high-performing districts, with Jamnagar maintaining a commanding lead at ₹3.63 lakh crore, largely owing to its petroleum and refinery exports.

In FY25, Uttar Pradesh contributes ₹1.86 lakh crore to India's total exports of ₹37.02 lakh crore.

This accounts for 5% of the country's total exports, positioning Uttar Pradesh as an important player in India's export landscape.

**Paytm** 



## **ONE 97 COMMUNICATIONS LIMITED**

Registered Office: 136, First Floor, Devika Tower, Nehru Place, New Delhi-110 019, Delhi, India Corporate Office: One Skymark, Tower-D, Plot No. H-10B, Sector-98, Noida-201304, Uttar Pradesh, India Telephone No.: +91 120 4770 770; Fax: +91 120 4770 771

Email: compliance.officer@paytm.com; Website: www.paytm.com

## NOTICE OF THE 25<sup>™</sup> ANNUAL GENERAL MEETING ("AGM") OF MEMBERS OF ONE 97 COMMUNICATIONS LIMITED ("COMPANY") AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 25th AGM of the Company is scheduled to be held on Friday, August 29, 2025 at 09:00 a.m. (IST) through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM ("Notice")

- The Notice and Annual Report 2024-25 ("Annual Report") have been sent in electronic mode only, on Tuesday, August 05, 2025, to those Members whose email addresses are registered with the Company/ MUFG Intime India Private Limited (Formerly known as Link Intime India Pvt. Ltd.), the Registrar and Share Transfer Agent of the Company ("RTA")/ Depositories/ Depository Participants ("DPs") and whose names appear in the Register of Members of the Company and/ or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories. The electronic dispatch of the Notice and Annual Report to the Members has been completed on Tuesday, August 05, 2025.
- A letter providing the web-link, including the exact path, for accessing the Annual Report for the Financial Year 2024-25, was dispatched on Tuesday, August 05, 2025 to those members who have not registered their email ids with the Company/
- website of National Securities Depositories Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com, on the websites of the Stock Exchanges i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively and on the website of RTA at https://web.in.mpms.mufg.com/client-downloads.html Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration)

The Notice and Annual Report are also available on the website of the Company at https://ir.paytm.com/agm, on the

- Rules, 2014, as amended from time to time, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI), the Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions (Ordinary and Special Resolutions) as set forth in the Notice using the facility of remote e-voting or e-voting at the AGM. The Company has appointed NSDL to provide VC/ OAVM services along with the e-voting facility to cast vote on the businesses to be Members whose name appears in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the
- Depositories as on the cut-off date i.e., Friday, August 22, 2025 ("Cut-off date") shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting at the AGM. The voting rights of Members shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the Cut-off date and a person who is not a Member as on the Cut-off date
- Any person who acquires share(s) of the Company and becomes a Member of the Company after the dispatch of Notice and hold shares as on Cut-off date i.e., Friday, August 22, 2025, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.com. However, if a Member is already registered with NSDL for e-voting, then the Member can use their existing user ID and password for casting the vote.
- The remote e-voting period is as follows:

Commencement of Remote e-voting	Conclusion of Remote e-voting
Tuesday, August 26, 2025 at 09:00 a.m. (IST)	Thursday, August 28, 2025 at 05:00 p.m. (IST)

- Members may please note that the remote e-voting shall be disabled by NSDL upon expiry of the aforesaid period. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member cannot change it subsequently. Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM, may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote(s) at the AGM again.
- The detailed procedure for remote e-voting, joining the AGM through VC/ OAVM and e-voting at the AGM, including the manner in which Members hold shares in physical/demat mode and who have not registered their email address, is provided
- In case of any queries or issues regarding remote e-voting or e-voting at the AGM, Members may refer the (i) Frequently Asked Questions (FAQs) or e-voting user manual for Members available at the download section of www.evoting.nsdl.com,

or (ii) Contact Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL, at evoting@nsdl.com or (iii) Call at Tel: 022 - 4886 7000. By order of the Board of Directors

For One 97 Communications Limited

Place: Noida, Uttar Pradesh Date: August 05, 2025

Sunil Kumar Bansal **Company Secretary and Compliance Officer** M. No.: F 4810

SHYAM ORE TO METAL

## SHYAM METALICS AND ENERGY LIMITED

CIN: L40101WB2002PLC095491 Regd. Off: P-19, Plate No. D-403 CPT Colony, Taratala Road, Kolkata-700088, Phone: +91 33 6521 6521,

Website: www.shyammetalics.com E-mail: compliance@shyamgroup.com

## NOTICE TO THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY 23RD ANNUAL GENERAL MEETING, INFORMATION ON REMOTE E-VOTING AND **BOOK CLOSURE**

The 23rd Annual General Member ("AGM") of the Company is scheduled to be held on Tuesday, August 26, 2025 at 03:00 P.M. Indian Standard Time ("IST"), through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the business set out in the Notice convening the AGM. Members will be able to attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. In compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act"), the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), and pursuant to the Ministry of Corporate Affairs, inter alia vide its Ceneral Circular No.(s), 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020, and subsequent circulars issued in this regard, the latest being General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 (collectively referred to as. "MCA Circulars") and, the Securities and Exchange Board of India vide its Circular(s) dated May 12,2020, January 15, 2021, May 13, 2022. January 5, 2023, October 6, 2023, and October 3, 2024 ("SEBI Circulars"), the 23rd Annual General Meeting of the Company ("AGM") is being held through VC/OAVM without the physical presence of the Members at a

The Integrated Annual Report for the Financial Year 2024-25 including the Notice convening the 23rd Annual General Meeting "AGM") have been sent on Monday, August 4, 2025 only through electronic mode to the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s)/RTA and is also available for download on the website of the Company i.e. https://www.shyammetalics.com (under investor tab), websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and also on the website of the Registrar & Share Transfer Agent of the Company, KFin Technologies Limited (KFin) at https://evoting.kfintech.com. Further, in terms of Regulation 36(1)(b) of SEBI Listing Regulation a letter providing web-link, including the exact path, where complete details of the Integrated Annual Report are available will be sent to those shareholders at their registered address who have not

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and in accordance with Regulation 44 of the Listing Regulations, Members have been provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system (remote e-voting). The Company has engaged in the services of NSDL for providing facility for remote e-voting, participation in the AGM through VC/OAVM and e-voting during the AGM.

yet registered their email id with the Company/ RTA/ Depository Participant(s)

The businesses set out in the Notice shall be transacted through remote e-Voting only. The Members, whose names appear in the Register of Members / List of Beneficial Owners as on Tuesday, August 19, 2025, being the cut-off date, shall be entitled to avail the e-Voting facility. Once vote(s) on Resolution(s) are cast by any Member, the same cannot be changed subsequently. The remote e-Voting facility would be available during the following period:

Commencement of e-Voting From 9.00 a.m. (IST) on Friday, 22rd August, 2025 End of e-Voting Upto 5.00 p.m. (IST) on Monday, 25th August, 2025

The remote e-Voting module shall be disabled by NSDL thereafter for the voting before AGM Members attending the ACM, who have not cast their votes by remote e-Voting, shall be eligible to exercise their voting rights during the AGM through e-Voting system via www.evoting.nsdl.com. Members who have exercised their voting rights by remote e-Voting prior to the AGM may also attend the AGM through VC / OAVM but shall not be entitled to cast their votes on such resolution(s) again during the AGM.

A person who is not a member of the Company as on the Cut-off date should be treated with this Notice for information purpose only. Any person, who acquires equity shares of the Company and becomes a Member after dispatch of the Notice and holds shares as on the cut-off date, i.e., Tuesday, August 19, 2025 may obtain the login Id and password for e-Voting, by sending a request to NSDL at evoting@nsdl.com or to the Company at compliance@shyamgroup.com. Members who are already registered with NSDL for remote e-Voting can use their existing User Id and Password for e-Voting. Detailed procedure for remote e-Voting before the AGM / remote e-Voting during the AGM is provided in the Notes to the Notice of the AGM. All documents referred to in the Notice and the Explanatory Statement thereto shall be made available for inspection by the

Members of the Company, without payment of fees up to and including the date of AGM. Members desirous of inspecting the same may send their request at compliance@shyamgroup.com from their registered e-mail addresses mentioning their names and folio numbers / demat account numbers. Pursuant to Section 91 of the Act, Rule 10 of the said Rules and Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of Members

and the Share Transfer Registers of the Company shall remain closed from Wednesday, August 20, 2025 to Tuesday, August 26, 2025 (both days inclusive), for the purpose of the AGM.

The Board of Directors has appointed Mr. Raj Kumar Banthia (Membership No. Al7190) of MKB & Associates, Practicing Company Secretary, as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process as well as for e-voting during the AGM, in a fair and The results of e-voting along with Scrutinizer's Report, shall be placed on the Company's website: https://www.shyammetal-

ics.com within two working days of the AGM and also communicated to the stock exchanges, where the shares of the Company

In case shareholders have not registered / updated their email address with the Depositories / Share Transfer Agent, they are

requested to kindly follow the below mentioned instructions for updating the E-mail IDs. Instructions to register / update the E-mail ID:

Shareholders are requested to register / update the same by submitting duly filled and signed Form ISR-1 with the RTA; Physical Holding M/s. Kflm Technologies Ltd at einward risekfintech.com

Please contact your Depository Participants (DP) and register your email address.

In case of any queries in registering the email address, shareholders may write to compliance@shyamgroup.com/einward.ris@k-

In case of any queries / grievances relating to e-Voting, Members may refer to "Frequently Asked Questions on e-Voting (For Shareholders pdf" and "e-Voting Manual - Shareholder.pdf" available at the "Download" section of NSDL e-Voting website, i.e., www.evoting.nsdl.com or call on Toll Free Nos.: 1800 1020 990%and@1800 224 430 or contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager of NSDL at Telephone Nos.: (022) 4886 7000 or at e-mail id: evoting@nsdl.co.in or contact at NSDL, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai - 400013. Members holding securities in demat mode with CDSL, can call at Toll Free No.: 1800-21-09911 or at e-mail id: helpdesk.evoting@cdslindia.com, For any further assistance, Members may also contact Mr. Birendra Kumar Jain, Company Secretary & Compliance Officer, Shyam Metalics and Energy Limited at Telephone

No. +91 33 6521 6521 or at the e-mail ID compliance@shyamgroup.com.

Place: Kolkata Date: 05.08.2025

Demat Holding

For Shyam Metalics and Energy Limited

FIEO said on Tuesday.

BIRLA CORPORATION LIMITED CIN: L01132WB1919PLC003334 Registered Office: Birla Building, 9/1, R.N. Mukherjee Road, Kolkata - 700 001 Phone: 033-6616 6729/6603 3410, Fax: 033 - 2248 7988/2872 E-mail: investorsgrievance@birlacorp.com, Website: www.birlacorporation.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS

100 Days Campaign - "Saksham Niveshak"

Pursuant to the Ministry of Corporate Affairs (MCA) letter dated 16th July, 2025 and as part of broader objectives of the Niveshak Shivir initiative led by the Investor ducation and Protection Fund Authority (IEPFA), Birla Corporation Limited ("the Company") is pleased to announce the launch of the 100 days Campaign- "Saksham Niveshak". This campaign has been launched to encourage shareholders who have unclaimed dividends up to financial year 2023-24 or have not yet updated their KYC details, bank mandates or contact details.

Shareholders falling under this category are requested to update the necessary details with the Company's Registrar and Transfer Agent (RTA) i.e. KFin Technologies imited, at Selenium Building, Tower-B, Plot No. 31 & 32, Financial District. Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Telangana - 500 032. For assistance shareholders may contact the RTA via Tel: +91 7961 1000 or by email at einward.ris@kfintech.com. Additionally, shareholders may also reach out to the Company directly at investorsgrievance@birlacorp.com for any further support.

his campaign has been launched as a proactive measure to help shareholders

afeguard their investments. We strongly encourage all eligible shareholders to take advantage of this opportunity and to update their details and claim any unpaid or inclaimed dividends to prevent the transfer of their shares and dividend to the IEPFA. For BIRLA CORPORATION LIMITED

MANOJ KUMAR MEHTA Company Secretary & Legal Head

Place : Kolkata Date: 5th August, 2025

# No proposal to stop supply of ₹500 notes, says govt

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, August 5

THERE IS NO proposal to stop supply of ₹500 denomination banknotes and ATMs will continue disbursing ₹500 alongside ₹100 or ₹200, minister of state for finance Pankaj Chaudhary informed Parliament on Tuesday.

The Reserve Bank of India (RBI) has informed that as part of their endeavour to enhance public access to frequently used denominations of banknotes, a circular titled 'Dispensation of ₹100 and ₹200 denomination banknotes through ATMs'has been issued on April 28, directing all banks and White Label ATM Operators (WLAOs) to ensure that their ATMs dispense ₹100 and ₹200 denomination banknotes on a regular basis, he said.

In a written response to the Rajya Sabha, he said, as per the milestones set by the RBI, 75% of all ATMs would dispense either ₹100 or ₹200 denomination banknotes from at least

one cassette by September 30. By March 31, 2026, he said, 90% of all ATMs would dispense either ₹100 or ₹200 denomination banknotes from at least one cassette.

# Dalmia DALMIA BHARAT SUGAR AND INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: Dalmiapuram - 621 651, Distt. Tiruchirapalli (Tamil Nadu)

Phone: 011 23465100, Fax (011) 23313303 Email: sec.corp@dalmiasugar.com. Website: www.dalmiasugar.com. CIN: L15100TN1951PLC000640

> Extract of Unaudited Financial Results for the quarter ended 30-06-2025 (₹ in Crore except as otherwise stated)

	Particulars	ı	For the year ended			
S.No.		30-06-2025	31-03-2025	30-06-2024	31-03-2025	
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	
1 2	Total Income from Operations Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items.)	956.78 51.46	1038.28 160.94	975.83 75.00	3820.49 349.71	
3	Net Profit/ (Loss) for the period before Tax (After Exceptional and/or Extraordinary items.)	51.46	160.94	75.00	349.71	
4	Net Profit/ (Loss) for the period after Tax (After Exceptional and/or Extraordinary items.)	38.37	206.32	54.73	386.75	
5	Total Comprehensive Income for the period [comprising profit/(Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	145.09	222.07	18.52	348.90	
6 7 8	Paid-up Equity Share Capital (Face Value ₹ 2/- each) Other Equity Earning per Share (face value of ₹ 2/- each) (not annualised)	16.19	16.19	16.19	16.19 3218.32	
a) b)	Basic (₹ per share) Diluted (₹ per share)	4.74 4.74	25.49 25.49	6.76 6.76	47.78 47.78	

1 The financial results are approved by the Board of Directors at their meeting held on August 05, 2025 after being reviewed

and recommended by the audit committee. The statutory auditors have carried limited review of these financial results.

2 The above is the extract of the detailed format of quarterly/yearly financial results filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results is available on the Stock Exchange websites, www.nseindia.com, www.bseindia.com and on the company website www.dalmiasugar.com.

Place: New Delhi Date: August 05, 2025



For Dalmia Bharat Sugar and Industries Limited Pankaj Rastogi Whole Time Director & CEO



# **Ensuring Freshness**

EXTRACT OF THE UN- AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2025

S.	PARTICULARS	STANDALONE RESULTS			CONSOLIDATED RESULTS		
No.		FOR THREE MONTHS ENDED		FOR TWELVE MONTHS ENDED	FOR THREE MONTHS ENDED		FOR TWELVE MONTHS ENDED
		30-JUNE-2025 (Un-Audited)	30-JUNE-2024 (Un-Audited)	31-MARCH-2025 (Audited)	30-JUNE-2025 (Un-Audited)	30-JUNE-2024 (Un-Audited)	31-MARCH-2025 (Audited)
1	Total Income from Operations	2,149.53	2,097.07	8,863.37	2,153.63	2,103.13	8,887.02
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items and Share of net profit/(loss) of joint ventures)	346.53	341.28	1,731.38	349.04	347.11	1,721.98
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax, Share of net profit/(loss) of joint ventures(after Exceptional and/or Extraordinary items.)	346.53	341.28	1,698.06	349.04	347.11	1,688.66
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	257.71	255.35	1,271.98	267.28	259.42	1,291.84
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	256.74	257.03	1,268.29	266.25	260,85	1,287.91
6	Equity Share Capital	304.65	304.65	304.65	304.65	304.65	304.65
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year			12,044.83			12,075.54
8	Earnings Per Share (of ₹ 5/- each) (for continuing and discontinued operations) -			1			
	1. Basic (₹)	3.38	3.35	16.70	3.51	3.41	16.96
	2. Diluted (₹)	3.38	3.35	16.70	3.51	3.41	16.96

The Standalone and Consolidated Financial results of the Company for the quarter ended June 30, 2025 have been reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors in its meeting held on 5" August , 2025. The statutory auditors of the Company have carried out limited review of the above results for Quarter ended June 30, 2025. Note:- The above is an extract of the detailed format of Quarter ended Financial Results for June 30, 2025 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter ended Financial Results are available on the Stock Exchanges Websites www.nseindia.com, www.bseindia.com and on company's website

CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.

(A Navratna Undertaking of Government of India) Regd. Office: CONCOR Bhawan, C-3, Mathura Road, Opp. Apollo Hospital, New Delhi - 110 076 CIN: L63011DL1988GOI030915 | Ph.: 011-41222500/600/700 | Website: www.concorindia.co.in

For & on behalf of the Board of Directors

(Chairman & Managing Director)

(Sanjay Swarup)

(DIN:05159435)

(₹ in Crore)

epaper.financialexpress.com

Follow us: 🔐 @OfficialCONCOR 💥 @concor\_india 🙆 co.pro@concorindia.com, investorrelations@concorindia.com

Company Secretary and Compliance Officer

Birendra Kumar Jain

Scan the QR code to

Financial Result

Place: New Delhi

Date: 05 August, 2025

view the Un-Audited

न्यूनतम- 26.0

तापमान

6 अगस्त, 2025

# अदालत ने लगाई रोक

# अभिषेक के खिलाफ अपमानजनक बयान नहीं दे सकेंगे शुभेदु

कोलकाता, ५ अगस्त (भाषा)।

कोलकाता की एक अदालत ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोई भी 'अपमानजनक बयान' देने से रोक दिया है। अदालत ने 19 अगस्त तक के लिए यह अंतरिम आदेश जारी किया।

डायमंड हार्बर के तृणमूल सांसद के दीवानी मानहानि मुकदमे के संबंध में आदेश जारी करते हुए अलीपुर अदालत के 8वें न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को की जाएगी। दीवानी



सोमवार एकपक्षीय आदेश में निर्देश दिया कि प्रतिवादी को आज से 19 अगस्त तक कोई भी मानहानिकारक बयान देने और/या प्रकाशित

और/या प्रकाशित करवाने और/या मृद्रित करवाने और/या मौखिक या लिखित रूप से वादी के लिए कोई भी मानहानिकारक शब्द कहने से रोका जाता है। बनर्जी ने आरोप लगाया था कि अधिकारी ने 26 जुलाई को यहां

भाजपा कार्यालय में प्रेसवार्ता में उनके खिलाफ कुछ अपमानजनक टिप्पणियां की थीं।

तृणमूल सांसद ने भाजपा नेता को उनके खिलाफ कोई भी अपमानजनक बयान देने से रोकने के लिए अंतरिम निषेधाज्ञा जारी करने का अनुरोध किया। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव बनर्जी के वकील की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने कहा कि अदालत का मानना है कि प्रथम दृष्टया मुकदमे के लिए उनका मामला बनता है। अदालत ने कहा कि तृणमूल सांसद और भाजपा नेता दोनों ही सार्वजनिक हस्ती हैं और समाज में उनकी प्रतिष्ठा है, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि उनके बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है।

# प्रदेश में जीएसटी

कोलकाता, ५ अगस्त (भाषा) ।

प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता फीसद की वृद्धि दर्ज की गई है।

ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर जानकारी दी कि राज्य ने पिछले महीने जीएसटी राजस्व 5,895 करोड रहा जो जुलाई 2024 के 5,257 करोड़ रुपए से अधिक है। उन्होंने कहा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पश्चिम बंगाल ने जुलाई 2025 के लिए सकल वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह में सालाना आधार पर 12 फीसद की

# संग्रह जुलाई में 12 फीसद बढ़ा : ममता

बनर्जी ने केंद्र द्वारा जारी अस्थायी आंकड़ों का हवाला देते हुए सोमवार को कहा कि राज्य में जुलाई में लिए सकल जीएसटी संग्रह में सालाना आधार पर 12

मजबूत वृद्धि दर्ज की है।

# शुभेंदु के काफिले पर हमला

कूचिबहार, ५ अगस्त (भाषा) ।

पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर राज्य के कूचबिहार जिले में प्रदर्शन के दौरान तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर हमला किया, जिससे जिले के खगराबाडी इलाके में तनाव फैल गया। जिस वाहन में अधिकारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री निशिथ प्रमाणिक बैठे थे, उसके बुलेटप्रूफ शीशे तोड़ दिए गए। एक पुलिस वाहन की खिड़की के शीशे टूट गए। हालांकि, तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों को 'सुनियोजित नाटक' करार दिया।

कुचबिहार में पुलिस अधीक्षक (एसपी) कार्यालय के बाहर भाजपा की एक रैली और प्रदर्शन का नेतृत्व करने तथा एसपी को ज्ञापन सौंपने के लिए शुभेंदु अधिकारी उत्तर बंगाल जिले की यात्रा पर आए थे भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिले में पार्टी विधायकों पर हाल में हुए हमलों के विरोध में कूचबिहार एसपी कार्यालय का घेराव करने की योजना बनाई थी।

तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कथित रूप से 'भाजपा शासित राज्यों में बंगालियों के उत्पीड़न' और 'बंगाल में पिछले दरवाजे से राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) को लागू करने के प्रयास' का विरोध करने के लिए 19 स्थानों पर एक साथ धरना प्रदर्शन किया। इनमें से अधिकतर स्थान उस मार्ग पर स्थित थे जहां से अधिकारी का काफिला गुजरने वाला था। अधिकारी को घोक्साडांगा क्षेत्र के पास 'वापस जाओ' और 'चोर' जैसे नारों का सामना करना पड़ा, और रास्ते में काले झंडे दिखाए गए।

भाजपा नेताओं के अनुसार, तृणमूल कांग्रेस पार्टी



भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के बुलेटप्रूफ वाहन के शीशे तोड़ दिए गए। त्णम्ल कांग्रेस ने इन आरोपों को 'सुनियोजित नाटक' करार दिया।

के झंडे और काले झंडे लिए तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ दोपहर करीब 12 बजकर 35 मिनट पर खगराबाड़ी चौराहे पर जमा हो गई। उसी वक्त अधिकारी का काफिला इलाके से गुजर रहा था। अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस रोहिंग्याओं को लेकर आए थे जो क्षेत्र में घुसपैठ कर आए थे और उनके जरिए उन पर हमला करवाया। उन्होंने दावा किया कि जिस कार से मैं जा रहा था उसे उन्होंने 'रॉड' और लाठी-डंडों से तोडने की कोशिश की। असफल होने के बाद उन्होंने भारी पत्थरों वार कर कार के बुलेटप्रूफ शीशे को तोड़ दिया।

# **Paytm**

## ONE 97 COMMUNICATIONS LIMITED

CIN: L72200DL2000PLC108985

पंजीकृत कार्यालय: 136, प्रथम तल, देविका टॉवर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019, दिल्ली, भारत कॉर्पोरेट कार्यालय: वन स्काईमार्क, टॉवर-डी, प्लॉट नंबर H-10B, सेक्टर-98, नोएडा-201304, उत्तर प्रदेश, भारत **टेलीफोन नंबर:** +91-120-4770770; फैक्स: +91-120-4770771

ईमेल: compliance.officer@paytm.com; वेबसाइट: www.paytm.com

## ONE 97 COMMUNICATIONS LIMITED के सदस्यों की 25वीं वार्षिक आम बैठक ("AGM") एवं ई-वोटिंग संबंधी सूचना

सूचित किया जाता है कि कंपनी की 25वीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, 29 अगस्त 2025 को प्रातः 09:00 बजे (IST) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("VC")/ अन्य

ऑडियो विजुअल साधन ("OAVM") के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें AGM के नोटिस ("नोटिस") में उल्लिखित विषयों पर विचार किया जाएगा। • नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 ("वार्षिक रिपोर्ट") केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मंगलवार, 5 अगस्त 2025 को उन सदस्यों को भेजी गई है, जिनके ईमेल पते कंपनी/ MUFG इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में लिंक इंटाइम इंडिया प्रा. लि.), जो कंपनी का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ("RTA") है/ डिपॉज़िटरी/ डिपॉज़िटरी प्रतिभागियों ("DPs") के साथ पंजीकृत हैं और जिनके नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर और/या डिपॉज़िटरीज़ द्वारा रखे गए बेनेफिशियल ओनर्स के रजिस्टर में दर्ज हैं। नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण सदस्यों को मंगलवार, 5 अगस्त, 2025 को पूरा कर लिया गया है।

जिन सदस्यों ने अपना ईमेल आईडी कंपनी/RTA /DP के साथ पंजीकृत नहीं कराया है, उन्हें मंगलवार, 5 अगस्त 2025 को एक पत्र भेजा गया है जिसमे प्रदान किये गए वेब-लिंक के माध्यम से वह वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं।

नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट निम्नलिखित वेबसाइट्स पर भी उपलब्ध हैं: (i) कंपनी की वेबसाइट: https://ir.paytm.com/agm, (ii) एनएसडीएल की वेबसाइट: www.evoting.nsdl.com (iii) बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट: www.bseindia.com और www.nseindia.com, (iv) RTA की वेबसाइट: https://web.in.mpms.mufg.com/client-downloads.html

कंपनी अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, समय-समय पर संशोधित किए गए कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पढ़ा गया है, भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम ४४ और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (ICSI) द्वारा जारी साधारण सभाओं पर सचिवीय मानक (SS-2) के अनुसार, सदस्यों को नोटिस में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों (साधारण और विशेष प्रस्ताव) पर अपना मत डालने की सुविधा दी गई है, जो रिमोट ई-वोटिंग या AGM में ई-वोटिंग की सुविधा के माध्यम से की जा सकती है। कंपनी ने AGM में विचार किए जाने वाले विषयों पर मतदान करने की ई-वोटिंग सुविधा के साथ VC/OAVM सेवाएं प्रदान करने के लिए NSDL को नियुक्त किया है।

जिन सदस्यों के नाम कट-ऑफ़ तिथि यानी शुक्रवार, 22 अगस्त 2025 ("कट-ऑफ़ तिथि") को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉज़िटरीज़ द्वारा रखे गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज हैं, वे रिमोट ई-वोटिंग या AGM में ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने के पात्र होंगे। सदस्यों के मतदान का अधिकार, कट-ऑफ़ तिथि को कंपनी की अदा की गई इक्विटी शेयर पूंजी में उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में होगा, और जो व्यक्ति निर्देशित तारीख तिथि पर भी सदस्य नहीं है, वे इस नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से पढ़ें।

े जो व्यक्ति नोटिस भेजे जाने के बाद कंपनी के शेयर खरीदता है और कंपनी का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ़ तिथि यानी शुक्रवार, 22 अगस्त 2025 को शेयर धारण करता है, वह अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते है। हालाँकि, यदि कोई सदस्य पहले से ही ई-वोटिंग के लिए NSDL के साथ पंजीकृत है, तो वह मतदान करने के लिए अपना मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि इस प्रकार है:

स्थान: नोएडा, उत्तर प्रदेश

तारीख: 5 अगस्त, 2025

रिमोट ई-वोटिंग प्रारंभ होने की तिथि और समय:	रिमोट ई-वोटिंग समाप्त होने की तिथि और समय:			
मंगलवार, 26 अगस्त 2025, प्रातः 09:00 बजे (IST)	गुरुवार, 28 अगस्त 2025, सायं 05:00 बजे (IST)			
• सदस्य कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त अवधि समाप्त होने पर NS	DL द्वारा रिमोट ई-वोटिंग सुविधा निष्क्रिय कर दी जाएगी। किसी प्रस्ताव पर एक बार सदस्य			

द्वारा मतदान करने के बाद, वह अपना मत बाद में बदल नहीं सकेंगे। जो सदस्य AGM से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान कर चुके हैं, वे AGM में शामिल हो सकते हैं, परंतु AGM में दोबारा मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।

मोड में शेयर रखते हैं और जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, इन सभी की विस्तृत जानकारी नोटिस में दी गई है। रिमोट ई-वोटिंग या AGM में ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न या समस्या की स्थिति में, सदस्य निम्न में से किसी विकल्प का उपयोग कर सकते हैं – (i) <u>www.evoting.nsdl.com</u> के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध 'अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न' (FAQs) या सदस्यों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देखें, या (ii) NSDL की सीनियर मैनेजर, सुश्री पल्लवी म्हात्रे से <u>evoting@nsdl.com</u> पर संपर्क करें, या (iii) टेलिफोन नंबर: 022 - 4886 7000 पर कॉल करें।

• रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया, VC/OAVM के माध्यम से AGM में जुड़ने की प्रक्रिया, और AGM में ई-वोटिंग की प्रक्रिया, साथ ही वे सदस्य जो भौतिक या डीमैट

बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स के आदेश से One 97 Communications Limited के लिए

सुनील कुमार बंसल

सदस्य संख्या: F 4810

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी



कटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सीआईएन: L63011DL1988GOЮ30915

बूरभाष: 41673093-96, 41222500/600/700 | वेबसाइट: http://www.concorindia.co.in वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अंतरिम लामांश हेतु अमिलेख तिथि की सूचना एतदवारा सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए बोर्ड द्वारा 05.08.2025 को आयोजित अपनी बैठक में घोषित @32% (5 रुपये प्रति शेयर के इक्विटी शेयर पर 1.60 रुपये प्रति शेयर) अंतरिम लाभाश के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से 13 अगस्त, 2025 (बुधवार) को अभिलेख तिथि के रूप में निर्धारित किया गया है। इसके

उन सदस्यों को जिनके नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर 13 अगस्त, 2025 को या जसरो पहले कंपनी और उसके रजिस्ट्रार के पास मौतिक रूप में जमा किए गए सभी वैध शेथर हस्तांतरणों को प्रभावी करने के बाद दर्ज होंगे, या

(ii) इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में, उन (मान्य सदस्यों) को, जिनके नाम नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रस्तुत लाभकारी स्वामित्व के विवरण में 13 अगस्त, 2025 को कारोबारी समय के अंत में अंकित होंगे

इलेक्ट्रॉनिक विलयरिंग सेवा (ईसीएस) के माध्यम से लागाश मगतान की सविधा का लाग उठाने के लिए, कंपनी के सदस्य, जो अपने शेयर डीमैट मीड में रखते हैं, अनुरोध है कि वै विधिवत भरा हुआ ईसीएस अधिदेश फॉर्म अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी को और भौतिक शेयर रखने वाले सदस्य कंपनी के शेयर ट्रांसफर एजेंट और रजिस्ट्रार: मेसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यटर सर्विसेज (प्रा.) लिमिटेंड, बीटल हाउस, तीसरी मंजिल, 99, मदनगीर स्थानीय शॉपिंग सेंटर के पीछे, दादा हरसुखदास मंदिर के पास, नई दिल्ली – 110062 को जमा करें। सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बाद ईसीएस निर्देश उसके सभी पिछले बैंक अधिदेशों / विवरणों को रद्द कर देंगे। ईसीएस अधिदेश फोर्म कंपनी की वेबसाइट www.concorindia.co.in पर उपलब्ध है।

डीमैट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने रिकॉर्ड, जैसे कर आवासीय स्थिति, स्थायी खाता संख्या (पैन), मोबाइल नंबर और अन्य विवरण, अपने डिपॉजिटरी प्रतिमागियों के माध्यम से संबंधित डिपॉजिटरी में अपडेट करें। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरवारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, मेसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कप्यूटर सर्विसेज (प्रा.) लिमिटेड को concor@beetalfinancial.com पर विवरण प्रस्तुत करे।

शेयरघारकों से यह भी अनुरोध है कि वे अपनी ईमेल आईडी कंपनी के साथ nvestorrelations@concorindia.com पर, अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियाँ / कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के साथ concor@beetalfinancial.com पर पंजीकृत/अपडेट करें, जिसका उपयोग भविष्य में ईमेल के माध्यम से आधिकारिक दस्तावेज

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने अवैतनिक / दावा किए गए लामाश, यदि कोई हो, क दावा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में लिखकर, ईमेल द्वारा या उसके R&TA को भेजकर करें यदि लाभांश सात वर्षों की अवधि तक अदा न किया गया हो या दावा न किया गया हो, तो कंपनी उसे निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में स्थानांतरित कर देगी। इसके अतिरिक्त, ऐसे सभी शेयर जिनके संबंध में लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय तक लागांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया हो, कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि के नाम पर स्थानांतरित कर दिए जाएँगे।

कृते कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

स्थानः नई दिल्ली दिनांक: 05.08.2025

(हरीश चन्द्रा) प्रधान कार्यपालक निदेशक (वित्त) एवं कंपनी सचिव एवं मुख्य वितीय अधिकारी

# तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से तेंदुए की मौत

कोलकाता, ५ अगस्त (भाषा) ।

राज्य के अलीपुरद्वार जिले में एक तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से एक तेंदुए की मौत हो गई है। एक वन अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि

यह घटना रविवार शाम मदारीहाट इलाके में हुई जब एशियन राजमार्ग पार करते समय एक तेज रफ्तार वाहन ने तेंदुए को टक्कर मार दी। उन्होंने कहा कि वन विभाग के अधिकारियों की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची और तेंदुए का शव बरामद किया।



## SHYAM METALICS AND ENERGY LIMITED

CIN: L40101WB2002PLC095491 Regd. Off: P-19, Plate No. D-403 CPT Colony, Taratala Road, Kolkata-700088,

Phone: +91 33 6521 6521,

Website: www.shyammetalics.com E-mail: compliance@shyamgroup.com

### NOTICE TO THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY 23RD ANNUAL GENERAL MEETING, INFORMATION ON REMOTE E-VOTING AND **BOOK CLOSURE**

कंपनी की 23वीं वारषिक आम सदस्य ("एजीएम") मंगलवार, 26 अगस्त, 2025 को अपराहन 03:00 बजे, भारतीय मानक समय ("आईएसटी"), वीडियीं कॉन्फरेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमाँ ("ओएवीएम") के माध्यम से एजीएम बुलाने की सूचना में निर्धारित व्यवसाय को पूरा करने के लिए आयोजित की जाएगी। सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुवधि। के माध्यम से एजीएम में भाग ते सकेंगे।

कंपनी अधनियिम, 2013 ("अधनियिम"), भारतीय एरतमिता और वनिमिय बोर्ड (सूबीबद्धता दायतिव और परकटीकरण आवश्यकताएँ) वनियम, 2015 ("सेबी सूचीकरण वनियम") के लागू प्रावधानों के अनुपातन में, और कॉर्पोरेट मामलों के मत्रातय के अनुसरण में, अन्य बातों के साथ-साथ इसके सामानय परिपत्र मेंख्या 14/2020 दनिांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दनिांक 13 अप्रैल, 2020, 20/2020 दनिोंक 5 मई, 2020, और इस संबंध में जारी किए गए बाद के परिपत्रों, नवीनतम सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 दनिक 19 सतिबर, 2024 (सामूहकि रूप से "एमसीए परिपत्र" के रूप में संदर्भति। और, भारतीय परतिभूति और वनिमिय बोर्ड अपने प्रिपत्र दनिक 12 मई, 2020, 15 जनवरी, 2021, 13 मई, 2022 के माध्यम से। जनवरी 5 अकटूबर, 2023, 6 अकटूबर, 2023 और 3 अक्टूबर, 2024 ("सेबी परिपत्र") के अनुसार, कंपनी की 23वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") सदस्यों की भौतकि उपस्थति के बना एक सामानप सुधत पर वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजीते की जा रही है।

वितितीय वर्ष 2024-25 के लिए एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें 23वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") बुलाने की सूचना शामलि है, सोमवार, 4 अगस्त, 2025 को केवल इलेक्ट्रॉनिक मोठ के माध्यम से कंपनी के उन सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ड्रेमेल पूर्त कंपनी/ठिपोजिटरी प्रतिभागी(औ)/आरटीए के पास पंजीकत है और यह कंपनी की वेबसाइट यानी https://www.shyammetalics.com (नविशक टेंब के अंतरगत), सटॉक एकसवेंजों की वेबसाइट पानी बीएसई तमिटिंड और नेशनत सटॉक एकसवेंज ऑफ इंडिया तमिटिंड करमश:www.bseindia.com और www.nseindia.com पर, और कंपनी के रजसिट्रार और ग्रेयर ट्रांसफर एजेंट, केफनि टेकनोलॉजीज लिमिटिंड (केफनि) की वेबसाइट https:evoting.kfintech.com पर भी डाउनलोंड के तिए उपलब्ध है। इसके अलावा, सेबी लिस्टिंग विनियमन के विनियमन 36(1)(बी) के अनुसार, एकीकृत वारुषिक रूपिरेट का पूरा विवरण उपलब्ध कराने वाला एक पतर, जेसमें सटीक पथ भी शामलि होगा, उन शेपरधारकों को उनकें पंजीकृत पते पर भेजा जाएगा जेनिहोंने अभी तक कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटिरी परतभागी(ओ) के साथ अपना ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं कराया है।

कंपनी अधनिषिम, 2013 की धारा 108 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नृषिम, 2014 (यथा संशोधति) के निषम 20 के प्रावधानों और लेसिटींग विनिषिमों के वनिधिमन 44 के अनुसार, सदस्यों को इलेकटरॉनिक वोटिंग ससिटम (रिमीट ई-बोटिंग) का उपयोग करके एजीएम की सूचना में दिए गए सभी प्रसतावी पर अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की गई है। कंपनी ने रिमीट ई-वोटिंग, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भागीदारी और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा

सूचना में दिए गए क्यवसाय केवल रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से ही किए जाएंगे। जिन सदस्यों के नाम मंगलवार, 19 अगस्त, 2025 (अंतमि तथि। तक सदस्य रजसिटर/लाभार्थी स्वामयिं की सूची में दरज़ हैं, वे ई-वोटिंग सूविधा का लाभ उठाने के पात्र होंगे। किसी भी सदस्य द्वारा एक बार प्रस्ताव पर वोट डाल दिए जाने के बाद, उसे बाद में बदला नहीं जा सकेंगा। रिमोट ई-वोटिंग सूविधा निम्नलिखित अवधी के दौरान उपलब्ध होंगी:

Commencement of e-Voting From 9.00 a.m. (IST) on Friday, 22" August, 2025 Upto 5.00 p.m. (IST) on Monday, 25th August, 2025 End of e-Voting

इसके बाद, वारशकि आम बैठक (एजीएम) से पहले मतदान के लिए एनएसडीएल दवारा रिमोट ई-वोटिंग मॉडपुल को निषकरिय कर दिया जाएगा। एंजीएम में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने रमिोट ई-बोटिंग दकारा अपना बोट नहीं डाला है, वे www.evoting.nsdl.com के माध्यम से ई-बोटिंग प्रणाली के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र होंगे। जिन सदस्यों ने वार्षिक आम बैठक (एजीएम) से पहले रमिोट ई-वोटगि दवारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में भाग ले सकते हैं, लेकनि वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के दौरान ऐसे प्रस्तावों पर दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

जो वयकत किट-ऑफ तथि तिक कंपनी का सदसय नहीं है, उसके लिए यह सूचना केवल सूचना के उद्देशय से जारी की जानी चाहिए। कोई भी वयकति, जो कंपनी के इकविटी शेयर प्राप्त करता है और नोटिस भेजे जाने के बाद सदस्य बनता है और कट-ऑफ तथि, यानी मंगलवार, 19 अगसत, 2025 तक शेयर रखता है, वह NSDL को evoting@nsdl.com पर या कंपनी को compliance@shyamgroup.com पर अनुरोध भेजकर ई-वोटगि के लिए लॉगनि आईडी और पासवरूड प्राप्त कर सकता है। जो सदस्य पहले से ही रिभीट ई-वीटिंग के लिए NSDL के साथ पंजीकृत हैं, वे ई-वीटिंग के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासंबरंड का उपयोग कर सकते हैं। एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटगि / एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटगि की वसितृत परकरिया एजीएम की सूबना के नोटस में दी गई है। नोटिस और उसके वयाख्यात्मक विवरण में संदर्भित सभी दसतावेज कंपनी के सदस्यों दवारा एजीएम की तथि तक बना किसी शुलक के नर्रिकचण के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। अधनियिम की धारा 91, उकत नियमों के नियम 10 और लसिटिंग वनियमों के वनियम 42 के अनुसार, कंपनी के सदसयों का रजसिटर और शेयर हसतांतरण रजसिटर वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के लिए बुधवार, 20 अगस्त, 2025 से मंगलवार, 26 अगस्त, 2025 (दोनों

नदिशक मंडल ने एमकेबी एंड एसोसपिट्स के शरी राज कुमार बंठिया (सदस्यता संख्या A17190), कार्यरत कंपनी संबंधि को दूरस्थ ई-वोटिंग प्रक्रिया की जाँव करने और वारष्ठिक आम बैठक (एजीएम) के दौरान निषपकृष और पारदरशी तरीके से ई-वोटिंग के लिए संवीकृषक निपुक्त किया है। ई-वोटगि के परिणाम, संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ, वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के दो कार्यदिवसों के भीतर कंपनी की वेबसाहट: https://www.shyammetalics.com पर प्रकाशति किए जाएँगे और उन स्टॉक एक्सचेजों को भी सूचित किया जाएगा जहाँ कंपनी के शेयर सूचीबद्ध है।

यदि शेयरधारको ने उपिांजिटरी/शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास अपना ईमेल पता पंजीकत/अपडेट नहीं किया है, तो उनसे अनुरोध है कि वे ईमेल आईडी अपडेट करने के लिए नीचे दृष्टि गए नरिदेशों का पालन करें।

Shareholders are requested to register / update the same by submitting duly filled and signed Form ISR-1 with the RTA, M/s. Klin Technologies Ltd at einward.nisakfintech.com Physical Holding Please contact your Depository Participants (DP) and register your email address. Demat Holding

ईमेल पता पंजीकृत करने में कस्ति भी प्रश्न के मामले में, शेयरधारक compliance@shyamgroup.com/einward.ris@kfintech.com पर लेखि सकते हैं।

ई-वोटगि से संबंधति कसिं भी प्रश्न/शकिायत के मामले में, सदस्य एनएसडीएल ई-वोटगि वेबसाइट, यानी www.evoting.nsdl.com के "डाउनलोड" अनुभाग में उपलब्ध "ई-वोटगि पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (शेयरधारको के लिए) par और "ई-वोटगि मैन्अल - शेयरधारक,par का संदर्भ ले सकते हैं या टील फ्री नंबर: 1800 1020 990 और 1800 224 430 पर कॉल कर सकते हैं या एनएसडीएल के वरिष्ठ प्रखंधक सुश्री पत्तवी महात्रे से टेलीफोन नंबर: (022) 4886 7000 पर या ई-मेल आईडी: evoting@nsdl.co.in पर संपर्क कर सकते हैं या एनएसडीएल, 'दरेड वर्ल्ड', 'ए' विग, वीधी मंजलि, कमला मिल्स कंपाउंड, लोअर परेल, मुंबई - 400013 पर संपर्क कर सकते हैं। सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभृतियां रखने वाले सदस्य कॉल कर सकते हैं। टोल-फरी नंबर: 1800-21-09911 या ईमेल आईडी: helpdesk.evoting@cdslindia.com पर संपर्क करें। किंसी भी अंतरिकित सहायता के लिए, सदस्य श्रारी बीरेंदर कुमार जैन, कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधीकारी, श्याम मेटालकिस एंड एनरजी लिमिटिड से टेलीफोन नंबर +91 33 6521 6521 पर या ईमेल आईडी compliance@shyamgroup.com पर संपर्क कर सकते हैं।

Place: Kolkata Date: 05.08.2025

ईमेल आईडी पंजीकत/अपडेट करने के नरिदेश


For Shyam Metalics and Energy Limited Birendra Kumar Jain Company Secretary and Compliance Officer



### 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश क्र. विवरण ₹Ĭ. समाप्त बारह समाप्त बारह समाप्त तिमाही के लिए समाप्त तिमाही के लिए माह के निए माह के निए 31 मार्च 2025 30 जून, 2024 31 मार्च 2025 30 जून, 2025 | 30 जून, 2024 30 जून, 2025 (अलेखापरीक्षित) (अलेखापरीक्षित) (लेखापरीक्षित) (अलेखापरीक्षित) (अलेखापरीक्षित) (लेखापरीक्षित) परिचालनों से कल आय 2.149.53 2.097.07 8,863,37 2,153.63 2,103.13 8,887.02 अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि) (कर से पहले, अपवादात्मक तथा / अथवा 346.53 341.28 1,731.38 349.04 347.11 1,721.98 अतिविशिष्ट मदें तथा संयुक्त उद्यमों के निवल लाम/(हानि) का हिस्सा) अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि) कर से पहले, संयुक्त उद्यमों के निवल लाभ 346.53 341.28 1,698.06 349.04 347.11 1,688.66 /(हानि) का हिस्सा (अपवादात्मक तथा/अथवा अतिविशिष्ट मदों के पश्चात) कर के पश्चात अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि)(अपवादात्मक तथा / अथवा 257.71 255.35 1,271.98 267.28 259.42 1,291.84 अतिविशिष्ट मदों के पश्चात) अवधि हेत् कुल व्यापक आय (अवधि हेत् लाभ / (हानि) (कर के पश्चात) तथा 256.74 257.03 1,268.29 266.25 260.85 1,287.91 अन्य व्यापक आय सहित (कर पश्चात)] इविचटी शेयर पुंजी 304.65 304.65 304.65 304.65 304.65 304.65 आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर) पिछले वर्ष के लेखा परीक्षित बैलेंस 12,044.83 12,075.54 शीट में दर्शाए गए के अनुसार अर्जन प्रति शेयर (₹5 / – प्रत्येक) (नियमित एवं अनियमित प्रचालनों के लिए) 1. मूल (र) 3.38 3.35 16.70 3.51 3.41 16.96 3.38 3.35 16.70 3.51 3.41 16.96 तनुकृत (र)

30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए कम्पनी के एकल एवं समेकित वितीय परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई है और 05 अगस्त, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कियां गया है। कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 30 जुन, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए उपरोक्त परिणामों की सीमित समीक्षा की है। नोटः उपरोक्त परिणाम, सेबी (सूचीयन एवं अन्य प्रकटन आवश्कताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल किए गए 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों के विस्तृत

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड



दिनांकः 05 अगस्त, 2025

(भारत सरकार का एक नवरत्न उपक्रम) पंजीकृत कार्यालयः कॉनकॉर भवन, सी-३, मथुरा रोड, अयोलो अस्पताल के सामने, नई दिल्ली-110076

सीआईएन: L63011DL1988G01030915 फोन: 011-41222500/600/700 वेक्साइट: www.concorindia.co.in

प्रारूप का सारांश है। समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों का पुरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.nseindia.com, www.bseindia.com और कम्पनी की वेबसाइट www.concorindia.co.in पर उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से हस्ता./-(संजय स्वरूप) (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)

डीआईएन: 05159435

हमें फॉलो करें: 🚮 @OfficialCONCOR 💥 @concor\_india 👩 co.pro@concorindia.com, investorrelations@concorindia.com

epaper.jansatta.com

কলকাতা, শিলিগুড়ি ও পোর্ট ব্লেয়ার থেকে একযোগে প্রকাশিত

পাশে প্রিয়াঙ্কা



Kolkata Office: Ph: 033 22274548

E-mail: lipinews4@gmail.com

Vol - XX, ISSUE - 158

কলকাতা ● বুধবার ● ২০ শ্রাবণ, ১৪৩২ ● ৬ আগস্ট, ২০২৫ ● KOLKATA ● WEDNESDAY ● AUGUST 6, 2025

# এসআইআর ইস্যুতে

www.facebook.com/arthiklipiepaper, www.lipidigital.in



ঘাটালে বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী। সঙ্গে দেব।

বিধানসভা নির্বাচনের আগে কমিশন, কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছে। পরিকল্পনা মাফিক জল নিকাশির নিবিড় সংশোধনের মাধ্যমে সেই গুলি বৈধ হবে না কেন?" এসআইআর ইস্যুতে কেন্দ্রীয় ভোটার তালিকায় স্বচ্ছতা আনার দীর্ঘদিনের নিম্ন চাপের ফলে সরকারকে কড়া ভাষায় আক্রমণ উদ্যোগ নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। অতিবৃষ্টি ও ডিভিসির ছাড়া জলে এই কাজের মাধ্যমে আসলে কার্যত এক মাসের উপর প্লাবিত হুঁশিয়ারি দিয়ে জানান, যারা নির্বাচন কমিশন বিজেপিকে সুবিধা ঘাটাল। ঘাটালের গ্লাবিত এলাকায় একবার ভোটার লিস্টে অন্তর্ভুক্ত করে দিতে চাইছে বলে অভিযোগ প্রশাসনের পক্ষ থেকে মেডিকেল হয়েছে তারা হঠাৎ করে কেন বাদ তুলেছে তৃণমূল। এই ইস্যুতে ক্যাম্প ও ত্রাণ শিবিরের ব্যবস্থা পড়বে। প্রত্যেকটি ঘাটালবাসীকে লাগাতার নির্বাচন কমিশন ও করা হয়েছে। সাংসদের পক্ষ বলে যাচ্ছি, আপনারা ভোটার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দাগছেন থেকে রাগ্না করা খাবার গৃহবন্দী লিস্টে সবাই নতুন করে নাম মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মানুষদের প্রদান করার ব্যবস্থা করা তুলবেন। কেন্দ্রীয় সরকার চক্রান্ত মঙ্গলবার ঘাটালের বন্যা কবলিত হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে করছে, এস আই আর-এর নামে এলাকা পরিদর্শনে গিয়েও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এনআরসি করার চেষ্টা হচ্ছে। সেই এসআইআর ইস্যুতে কেন্দ্র ও ঘাটালের বন্যা পরিদর্শনে যান। সঙ্গে তিনি দাবি করেন, ১০০ নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সূর ঘাটাল পৌরসভার অন্তর্গত দিনের কাজের টাকা কেন্দ্রীয় চড়ালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দু'নম্বর ওয়ার্ডের আড়গোড়া সরকার দীর্ঘদিন ধরে আটকে কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করে চাতালে এখনও প্রায় কোমর সমান রেখেছে। যার ফলে নদী-নালা

তিনি বলেন, এই বছর একটু আগেই বন্যার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। যার ফলে ঘাটালের বেশ কিছু জায়গা বন্যা কবলিত হয়েছে। ডিভিসি না জানিয়ে জল ছেড়ে দেওয়ায় ঘাটালে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে বলে অভিযোগ মৃখ্যমন্ত্রীর। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচন হয়ে গেলে আমরা বড় বড় জলাধার তৈরি করব। ডিভিসি হঠাৎ করে শान्तन भान • भिन्ठिम मिनिभुत ना। তारल कानों रदि और जल एएए पिल प्रथान जल পরিচয় পত্রগুলি ইলেকশন সঞ্চিত করে রাখা হবে, পরে করেন। নির্বাচন কমিশনকে কার্ড, আধার কার্ড কোনওটাই হবে চাতালে প্রায় হাঁটু সমান জলে হতে হচ্ছে রাজ্য সরকারকে।



বিহারে এসআইআর বা বিশেষ কোটি কোটি টাকা খরচ হয়েছে। ব্যবস্থা করব। পাশাপাশি তিনি <mark>আরামবাগের ত্রাণ শিবিরে নিজের হাতে খাবার পরিবেশন করছেন</mark> মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবিঃ জ্যোতির্ময় বসু

## জাতীয় নিৰ্বাচন কমিশন

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্তির ক্ষেত্রে অনিয়মের অভিযোগ উঠল এ রাজ্যেও। সেই ঘটনায় কড়া মনোভাব নিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। চার আধিকারিককে সাসপেন্ড করার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। রাজ্যের মুখ্যসচিবকে চিঠি দিয়ে সে কথা জানানো হয়েছে কমিশনের তরফে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় নিযুক্ত এই চার আধিকারিকের বিরুদ্ধে এফআইআর করার নির্দেশও দিয়েছে কমিশন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বারুইপুর পূর্ব এবং পূর্ব মেদিনীপুরের ময়না বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটার তালিকার কাজ যাঁদের তত্ত্বাবধানে চলছিল, সেই দুই ইআরও এবং দুই এইআরও-কে সাসপেন্ড করার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। বারুইপুর পূর্বের ইআরও এবং এইআরও। পতাকা। অভিযোগ, সেই সময়েই কনভয়ে গাড়ি ভাঙচুর প্রসঙ্গে তাই ওদের অত রাগ।' তাঁর কথায়, হিসেবে কাজ করছিলেন দেবোক্তম দত্ত চৌধুরী এবং তথাগত মণ্ডল। ময়না | ওই জমায়েত থেকে শুভেন্দুর অবশ্য উদয়ন কিছু বলেননি। এই "আমি যাদের দেখলাম, তাদের ৯০ বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য ওই দুই দায়িত্বে ছিলেন বিগ্লাব সরকার ও সুদীপ্ত | গাড়ি লক্ষ্য করে জুতোও ছোড়া ঘটনায় এখনও পর্যন্ত এক জনকে ভাগ তাঁর প্রশ্ন, ''রেশন কার্ড, ভোটার জল রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আড়গোড়া সংস্কার করতেও সমস্যার সম্মুখীন দাস। তাঁদের পাশাপাশি সুরজিং হালদার নামে এক ডেটা এন্ট্রি হয়। পুলিশের সামনেই তাঁরা গাড়ি গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মুসলমান, তাদের আমরা ভারত অপারেটরের নামেও এফআইআর দায়ের করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। । লক্ষ্য করে পাথর ছোড়ে। শুধু কোচবিহারের ঘটনা

# শুভেন্দুর কনভয়ে হামলা, ভাঙল গাড়ির কাঁচ

কোচবিহারে গিয়ে হামলার মুখে

পড়ল রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দ অধিকারীর কনভয়। ভাঙ্চর চালানো হয় একটি গাড়িতেও। সেই ঘটনায় তোলপাড় রাজ্য। বিজেপি বিধায়কদের উপর হামলার ঘটনায় মঙ্গলবার কোচবিহারের পুলিশ সুপারের সঙ্গে দেখা করার কথা



কনভয়ে হামলা চালায় বলে শুভেন্দু এবং বিজেপি নেতৃত্বের গাড়িতে না থাকতাম, তা হলে বলে অভিযোগ। কারও কারও বাংলা ভাষা বিরোধী।তারা যেখানে অফিসের বিক্ষোভ মঞ্চ থেকে

## উএ মামলার সাপ্রম শুনানি

নয়াদিল্লি ঃ সুপ্রিম কোর্টে চলছে সওয়াল করেন প্রবীণ আইনজীবী ডিএ মামলার শুনানি। মঙ্গলবার কপিল সিব্বল ও শ্যাম দেওয়ান। সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশের কলকাতা হাইকোর্ট ও ট্রাইব্যুনালে টাকা দিতে হবে তা তো হিসাব করা মৌলিক অধিকার না হয়, তাহলে সওয়াল শুনে সুপ্রিম কোর্টের শ্যাম দেওয়ান তাঁর সওয়ালে কোর্টে রাজ্য সরকারের হয়ে সরকারি কর্মীদের।

মামলার শুরু থেকেই সরগরম ছিল কপিল তাঁর সওয়ালে বলেন, সংসদের অধিবেশন চলাকালীনই কর্মচারিদের মৌলিক অধিকার আবার বিধানসভা থেকে পাশ কিনা, তা নিয়েই প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন করাতে হবে। এদিকে এদিন রাজ্য । নেওয়া হয়। তারপরেই মুখ্য সচেতক পদ বকেয়া মহার্ঘ ভাতার ২৫ শতাংশ কোনওভাবেই মৌলিক অধিকার আড়াই মাস পর রাজ্য সরকারের যখন মামলা চলছিল, তখন একই বক্তব্য, বকেয়া ডিএ বাবদ কত বিষয় উঠে আসে। ডিএ যদি লাগবে। মঙ্গলবার রাজ্যের এই নিয়ে গুনানির প্রথমার্যে ওঠে ঝড়।

## লোকসভায় চিফ হুইপ পদে কাকলি

শুভাশিস বিশ্বাস

শীর্য আদালত। উল্লেখ্য, সোমবারই আমাদের তো টাকার অভাব। তা সোমবার লোকসভায় তুণমূলের চিফ রাজ্য সরকারের তরফে সুপ্রিম ছাড়া রাজ্য সরকার তো ইচ্ছামতো হুইপ পদ থেকে ইস্তফার কথা ঘোষণা কোর্টে জানিয়ে দেওয়া হয়, যে আর্থিক ঘাটতি বাডাতে পারে না। করেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলের পরিমাণ টাকা দেওয়ার কথা বলা এত টাকার জন্য তো রিজার্ভ | সাংসদদের নিয়ে সোমবার ভার্চুয়াল হয়েছিল, সেটা বিপুল। মঙ্গলবার ব্যাঙ্কের থেকে ঋণ নিতে হবে। যা | বৈঠক করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই শুনানির শুরু থেকেই ডিএ আদৌ সহজ ব্যাপার নয়। ধার করলে বৈঠকেই অভিযেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে লোকসভায় দলনেতা করার সিদ্ধান্ত

বিচারপতি। প্রসঙ্গত, স্প্রিম সরকারের আইনজীবী শ্যাম থেকে ইস্তফা দেন কল্যাণ। আর এই ইস্তফার পরই পদ থেকে দায়িত্ব ছাড়তে চেয়ে সোমবার বিকেলেই কোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও ২৭ জুনের দেওয়ান জানান, পুরনো মামলার | সংবাদ মাধ্যমের সামনে মছয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভও পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছিলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মধ্যে রাজ্য সরকারি কর্মচারিদের নজির অনুযায়ী, ডিএ-কে উগরে দিতে দেখা যায় তাঁকে। এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন মঙ্গলবারই তা গ্রহণ করেছেন তুণমূলের সংসদীয় উঠতে শুরু করেছিল, কল্যাণের পর সংসদে তৃণমূলের দলের চেয়ারপার্সন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল মেটায়নি রাজ্য সরকার। উল্টে বলা যায় না। উল্লেখ্য, এর আগে | মুখ্যসচেতক কে হবেন তা নিয়েই। কল্যাণের ইস্তফার কংগ্রেসের তরফে সোশাল নিডিয়ায় পোস্ট করে এই ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই মঙ্গলবার অল ইন্ডিয়া খবর নিশ্চিত করা হয়েছে। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণা করা হয়। তৃণমূলের তরফ থেকে জানানো হয়, দায়িত্ব সামলাবেন বারাসতের দীর্ঘদিনের সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দন্তিদার লোকসভায় তৃণমূলের চিফ কাকলি ঘোষ দন্তিদার। পাশাপাশি কাকলির ছেড়ে হয়নি। এ জন্য অস্তত দু'মাস সময় কর্মচারিরা কেন পাবেন এই প্রশ্ন | ছইপের দায়িত্ব পাচ্ছেন। অর্থাৎ এবার থেকে কল্যাণের যাওয়া পদ অর্থাৎ লোকসভায় উপ দলনেতা বা ডেপুটি দায়িত্ব সামলাবেন বারাসতের তৃণমূল সাংসদ। লিভার হলেন বীরভূমের তারকা সাংসদ শতাব্দী রায়। বিচারপতিরা তাঁদের পর্যবেক্ষণে বলেন, 'ডিএ ফান্ডামেন্টাল রাইট | হচ্ছেন সাংসদ শতাব্দী রায়। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ বারাসতের সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। অন্যদিকে, বলেন, হিসাব করে কিছু অন্তত নয়। ডিএ নিয়ে কোনও আইনি থেকে এও জানানো হয়, 'কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় কাকলি ঘোষ দস্তিদারের দায়িত্ব বদল হওয়ায় সেই



দিয়েছেন। চেয়ারপার্সন তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন এবং এই ভূমিকায় তাঁর অবদানের জন্য তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। বর্যীয়ান সংসদ সদস্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে, চেয়ারপার্সন তাৎক্ষণিকভাবে লোকসভায় তৃণমূলের নতুন চিফ হুইপ হিসেবে ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার এবং লোকসভায় তৃণমূলের নতুন ডেপুটি লিডার শতাব্দী রায়কে মনোনীত করেছেন।' প্রসঙ্গত লোকসভায় তৃণমূলের মুখ্য সচেতকের

তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ নতুন মুখ্য সচেতকের নাম বদলে এখন লোকসভায় দলের নতুন মুখ্য সচেতকের অন্যদিকে লোকসভায় তৃণমূলের ডেপুটি লিডার মঙ্গলবারই ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে যোগ দেন মিটিয়ে দিক সরকার। এদিন সুপ্রিম এবং স্ট্যাটুয়েটরি রাইটস নেই | লোকসভায় তৃণমূলের সংসদীয় দলের চিফ ছইপের পদ জায়গায় এসেছেন শতাব্দী রায়। তিনি এখন থেকে সরে চেয়ারপার্সনের কাছে পদত্যাগপত্র জনা লোকসভায় ডেপুটি দলনেতা।



## SHYAM METALICS AND ENERGY LIMITED

CIN: L40101WB2002PLC095491 Regd. Off: P-19, Plate No. D-403 CPT Colony,

Phone: +91 33 6521 6521, Website: www.shyammetalics.com E-mail: compliance@shyamgroup.com

### NOTICE TO THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY 23RD ANNUAL GENERAL MEETING, INFORMATION ON REMOTE E-VOTING AND

কোম্পানির ২৩তম বার্ষিক সাধারণ সদস্য ("এজিএম") ২৬শে আগস্ট, ২০২৫, মঙ্গলবার, ভারতীয় মান সময় ("আইএসটি") বিকাল ৩:০০ টায় ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি") / অন্যান্য অডিও-ভিজ্ঞয়াল উপায় ("ওএভিএম") এর মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনার জন্য অনুষ্ঠিত হবে। সদস্যারা শুধুমাত্র ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান এবং অংশগ্রহণ করতে পারবেন কোম্পানি আইন, ২০১৩ ("আইন") এর প্রযোজ্য বিধান মেনে, গিকিউরিটিজ অ্যান্ড এন্ধচেঞ্জ বোর্ড অঞ্চ ইন্ডিয়া (জানিকাবন্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেপ্তনেশনস, ২০১৫ ("SEBI তালিকাভুক্তি নিয়ন্ত্র") এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, তানের ৮ এপ্রিল, ২০২০ তারিষের সাধারণ সাকুলার নং (গুলী, ১৪১৫), ১৩ এপ্রিল, ২০২০ তারিষের ১৭/২২০, ৫ মে, ২০২০ তারিষের ২০/২০১৫, এবং এই বিষয়ে জারি করা পরবর্তী সার্কুলারগুলির মাধ্যমে, সর্বশেষটি হল ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিষের সাধারণ সার্কুলার নং ১৯/২০২৪ (সার্শীলিভভাবে - এমসিএ সার্কুলার হিস্যবে উল্লোখ করা হয়েছে) এবং, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অঞ্চ ইন্ডিয়া তাদের ১২ মে, ২০২০, ১৫ জানুমারী, ২০২১, ১৩ মে, ২০২২ তারিষের

াইসাৰে উল্লেখ কয় যেছে। এবং, শিকভাৱিডিজ আদে এক্সাডেন্ত (বার্ড অঞ্চ খাঁডয়া ভাদের ১২ যে, ২০২০, ১৫ জানুয়াবী, ২০২১, ১০ যে, ২০২২ ভারিংশর স্মর্কুলার (ভালিল) এব মাধ্যমে। ৫ জানুয়াবী, ২০২৩, ৬ জানুয়াবির, ২০২৩ এবং ৩ জানুরার, ২০২৪ ("Selen) এবং কাশ্যনির এতেও মার্বিক সাধারণ সভা ("AGM") VC/OAVM এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হচেন্ত, যেখানে সদস্যদের কোনও সাধারণ স্থানে উপস্থিতি থাকবে না। ২৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম") আছানের নোটিশ সহ ২০২৪-২৫ আর্থগুরের সমান্থিত বার্ষিক প্রতিবেদন, ৪ আগস্ট, ২০২৫ স্মোমবার ইনেকট্রনিক মাধ্যমে কোমপানির সেইকস দসমাদের কালে গাঠানে যহেছে যাকের ইমেল ঠিকান লোগনি/ডোপাড়িটার জ্বংশ্রহণকারী/আরারিএ-০০ নিবন্ধিত এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ https://www.shyammetalics.com (বিনিয়োগকারী ট্যাবের অর্থীনে), স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট ঘথাক্রমে www.bseindia.com এবং কোম্পানির রেজিন্ট্রার এবং শোষার ট্রান্সকার ব্রজেই, কেছিল টেকনোনাড্রিস দিমিটেড (কিছিন)-এর ওয়েবসাইটে https://www.shyammetalics.com এবং কোম্পানির রেজিন্ট্রার এবং শোষার ট্রান্সকার ব্রজেই বিশ্বস্থানের সিম্বন্ত বিশ্বস্থানের সিম্বন্ত বিশ্বস্থান বিশ্বস্থ

আর্থাত নিবন্ধন করেনান। কোম্পানি আইন, 2013 এর ধারা 10৪ এবং কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধি, 2014 (সংশোধিত) এর বিধি 20 এর বিধান অনুসারে এবং তালিকাভুক্তি নিয়ন্ত্রণের বিধি 44 অনুসারে, সদস্যদের ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম (রিমোট ই-ভোটিং) ব্যবহার করে বার্থিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লিখিত সমস্ত সিদ্ধান্তে তাদের ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদানের জন্য হয়েছে। রিমোট ই-ভোটিং, VC/OAVM এর মাধ্যমে বার্থিক সাধারণ সভার অংশগ্রহণ এবং বার্থিক সাধারণ সভার সময় ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য কোম্পানি NSDL-এর পরিধেবাদ্ধ নিযুক্ত রয়েছে। নোটিশে উল্লিখিত ব্যবসাগুলি শুধুমার রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে লেনদেন করা হবে। হেসব সদস্যের নাম সদস্য নিবন্ধন/সুবিধাভোগী মালিকদের তালিকায় মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে অন্তর্ভুক্ত থাকবে, তারা ই-ভোটিং সুবিধা শ্রহণের অধিকারী হবেন। কোনও সদস্য একবার রয়েজালিউশন(শুলি) এর উপর ভোট দিলে, পরবর্তীতে ডা পরিবর্তন করা যাবে না। দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা নিপ্ললিখিত সময়কালে উপলব্ধ থাকবে:

Commencement of e-Voting

From 9.00 a.m. (IST) on Friday, 22nd August, 2025 Upto 5.00 p.m. (IST) on Monday, 25th August, 2025

বার্ষিক সাধারণ সভার আগে ভোটদানের জন্য NSDL কর্তক রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিক্তিয় করা হবে।

বার্ষিক সাধারণ সভার সময় উপস্থিত সদস্যরা, যারা রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেননি, তারা www.evoting.nsdl.com এর মাধ্যমে ই-ভোটিং সিস্টেম্মের মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভার সময় ভাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। বার্ষিক সাধারণ সভার আগে রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোটদানকারী সদস্যরা VC/OAVM এর মাধ্যমেও বার্ষিক সাধারণ সভার সময় উপস্থিত থাকতে পারবেন, তবে বার্ষিক সাধারণ সভার সময় এই ধরণের সিদ্ধান্ত (গুলি) তে পুনরায় ভোটদানের অধিকারী হবেন না।

যে ব্যক্তি কাট-অফ তারিখে কোম্পানির সদস্য নন, তাদের তথ্যের উদ্দেশ্যে এই বিজ্ঞপ্তিটি ব্যবহার করা উচিত। নোটিশ পাঠানোর পর কোম্পানির 

াপারপানে আত্রাহ্য সপস্যারা তাপের নিবান্ধত ২- মেখন তিকাশা (বাক compliance@snyamgroup.com) বিকাশার তাপের নাম এবং ঝোলাও শর্পর
/ তিম্যাটি আ্যাকাউন্ট নম্বর উল্লেখ করে তালের অনুরোধ পাঠাতে পারেন।
আইনের ধারা ৯১, উক্ত বিধিয়ালার বিধি ১০ এবং তালিকাভুক্তি বিধিয়ালার ৪২ অনুযায়ী, বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে সদস্যদের নিবন্ধন এবং
কোম্পানির শেয়ার স্থানান্তর নিবন্ধন বুধবার, ২০ আগস্ট, ২০২৫ (থাকে মঙ্গলবার, ২৬ আগস্ট, ২০২৫ (উভড় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।
পরিচালনা পর্যন বিমাট ই-ভোটিং প্রক্রিয়া এবং বার্ষিক সাধারণ সভার সময় ই-ভোটিং সুকু ও স্বন্ধভাবে খাচাই-বাছাই করার জন্য MKB &
Associates-এর অনুশীলনকারী কোম্পানি সচিব জানাব রাজ কুমার বান্ধিয়া (সদস্য নং Al7190) কে যাচাই-বাছাইকারী হিসেবে নিযুক্ত করেছে।
ই-ভোটিংয়ের ফলাফল এবং স্কুটিনাইজারের রিপোর্ট, বার্ষিক সাধারণ সভার দুই কার্যদিবসের মধ্যে কোম্পানির ওয়েবসাইট: https://www.shyammetalics.com-এ প্রকাশ করা হবে এবং কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত শ্টক এঞ্জচেঞ্জগুলিতেও তা জানানো হবে।

যদি শেয়ারহোন্ডাররা ডিপোজিউরি/শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধিত/হালনাগাদ না করে থাকেন, তাহলে তাদের ইমেল আইডি আপডেট করার জন্য নীচের নির্দেশাবলী অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হচেছ।

ইমেল আইডি নিবন্ধন/হালনাগাদ করার নির্দেশাবলী:

**Physical Holding** 

ইুমেল ঠিকানা নিবন্ধন সংক্রান্ত কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, শেয়ারহোন্ডাররা compliance@shyamgroup.com/ einward.ris@kfintech.com

ই.ভোটিং সম্পর্কিত কোনও প্রশ্ন / অভিযোগের ক্ষেত্রে, সদস্যরা NSDL ই-ভোটিং ওয়েবসাইটের "ডাউনলোড" বিভাগে, অর্থাৎ www.evoting.ns-dl.com-এ উপলক্ষ "ই-ভোটিং সম্পর্কিত প্রায়শই জ্বিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবনী (শেয়ার হোভারদের জন্য), pdf এবং "ই-জোটিং মানুয়াল- শেয়ারহোভার pdf" দেখতে পারেন অথবা টোল ফ্লি দক্ষ: 1800 1020 999and1800 224 430-এ কল করতে পারেন অথবা NSDL-রর সিনিহর মানেজার শ্রীতিও পল্পবী মাহত্রের সাথে টেলিফোন নুম্বর: (022) 4886 7000-এ যোগাযোগ করতে পারেন অথবা ই-মেইল আইডি: evoting@nsdl.co.in-এ যোগাযোগ করতে পারেন অথবা NSDL, 'ট্রেড গুয়ার্ল্ড, 'এ' উইং, চতুর্থ তলা, কমলা মিলস কম্পাউন্ড, লোয়ার পারেল, মুম্বাই - 400013-এ যোগাযোগ করতে পারেন। CDSL-এর সাথে ডিমাট মোডে সিকিউরিটিজ্ঞারী সমস্রা টোল ফ্লি নম্বন্ধ: 1800 1020 990and1800 224 430-এ কল করতে পারেন। নং: 1800-21-0991। অথবা ই-শেইল আইডি: helpdeskevoting@cdslindia.com। আরও সহায়তার জন্য, সদস্যারা শাম মেটালিক্স আন্ত এনার্টিটি লিমিটেডের কোম্পানি সচিব এবং কমপ্লায়েক্স অঞ্চিস্যার <u>টী</u> বীরেন্দ্র কুমার জৈনের সাথে টেলিফোন নম্বর +91 33 6521 6521 অথবা ই-মেইল আইডি compliance@shyamgroup.com এ যোগাযোগ করতে পারে-

# মেঘভাঙা বৃষ্টিতে হড়পা বান, নিখোঁজ বহু

উত্তরা**খণ্ড ঃ** মেঘভাঙা বৃষ্টির জেরে হড়পা বানে ভয়াবহ পরিস্থিতি উত্তরাখণ্ডে। হড়পা বানে জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে উত্তরকাশী জেলার ধরালী গ্রামের বিস্তীর্ণ অংশ। জলের তোড়ে বছ বাড়িঘর ভেসে গিয়েছে। একাধিক জায়গায় ধসও নেমেছে। হড়পা বানের কাদা-পাথর ও জলের শ্রোতে তলিয়ে গিয়েছেন অনেকে। এই ঘটনায় কমপক্ষে চার জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। খোঁজ মিলছে না অন্তত ৫০ জনের। ফলে মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, বছ বাড়িঘর পাশাপাশি গ্রামে থাকা ২০-২৫টি অত্যন্ত দুঃখজনক এবং বেদনাদায়ক মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেঘভাঙা বৃষ্টির জেরে পরিস্থিতির দ্রুত চারটি দল ঘটনাস্থলে গিয়েছে।"



ধ্বংসস্তু পের নীচে বহু মানুযের আটকে জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি।' ভারতের রাজ্যগুলিতে কয়েকদিন ধরেই বৃষ্টি মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পড়ার খবরও মিলেছে। ইতিমধ্যেই এই একইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, এসডিআরএফ, হচ্ছে। হরিদ্বারে বিপদসীমার উপর দিয়ে অমিত শাহ। সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট দুর্যোগে চার জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা এনডিআরএফ, জেলা প্রশাসন যুদ্ধকালীন বইছে গঙ্গা এবং কালী নদী। নাগাড়ে ভারী করে তিনি লেখেন, ''ধরালির হড়পা বান গিয়েছে। খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না প্রায় তৎপরতায় উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে।এই কাজের বর্ষণের জেরে উত্তরাখণ্ডের রাজধানী নিয়ে উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা ৫০ জনের।উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং দায়িত্বে থাকা শীর্ষ কর্তাদের থেকে প্রতি দেহরাদূনে সোমবার সমস্ত স্কুল এবং হয়েছে। ওই ঘটনা সম্পর্কে খোঁজখবর ধামি বলেছেন, 'উত্তরকাশীর ধরলিতে মুহূর্তের খবর নিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী ধামি। এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র বন্ধ রাখতে হয়। এই নিয়েছি। আইটিবিপি-র তিনটি দল, জাতীয় মেঘ ভাঙার ফলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বিপর্যয়ের খবর পেয়ে ফোনে উত্তরাখণ্ডের পরিস্থিতিতে হড়পা বানের আশক্ষা ছিলই। বিপর্যয় মোকাবিলা দল (এনডিআরএফ)-এর



তরফে জানানো হয়েছে, ভারী বৃষ্টির জেরে উদ্ধারকাজ ব্যাহত হচ্ছে। বহু গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা জলের তলায়। চার ধামের অন্যতম গঙ্গোত্রীর সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। ধরালি গ্রামের মাত্র চার কিলোমিটার দূরে, হারসিলে রয়েছে সেনার ক্যাম্প। সেনার তরফে জানানো হয়েছে, তাদের ১৫০ জন ১০ মিনিটের মধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন। ১৫-২০ জনকে উদ্ধার করা গেলেও বাকিদের সন্ধানে তল্লাশি অভিযান চলছে। আহতদের চিকিৎসা সেনার ক্যাম্পেই। দুপুর ১টা ৪৫ মিনিটে দুর্যোগটি হোটেল এবং হোমস্টে ভেসে গিয়েছে। পরিস্থিতি। আমি সকলের নিরাপত্তার অমিত শাহ।হিমালয়ের কোলে থাকা উত্তর হয়। তার কিছু সময় পরেই উত্তরাখণ্ডের

অবনতি হয় উত্তরকাশী জেলায়। প্রশাসনের